कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम

पत्रांक :- 1585 / मुज0,

दिनांक :- /6/१/२०४५

प्रेषक:— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी —सह—सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:— शीर्ष नई अनुरक्षण नीति—2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 में व्यय हेतु आवंटन की मांग।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शीर्ष नई अनुरक्षण नीति—2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 में व्यय हेतु आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार रु० 386.15448 (तीन करोड़ छियासी लाख पन्द्रह हजार चार सौ अड़तालीस) रुपये मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये, ताकि किये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनुलग्नक— 1. विहित प्रपत्र में अधियाचना।

विश्वासभाजन

त्र १ १९। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम

			Requisition	on Format for S	cheme Hea	d-MR	(3054) Un	der Bihar Ru	ral Road M	Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)	cy-2018 (In	itial Rectifi	cation and	Surface R	enewal)				
Nam	N Jo	Name of Works Division :- Muzaffarpur West	zaffarpur West																
\neg				•	Administrati	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)	ıt (in Lakh)					Thickness of	Value of	Previous	Indodete	Peopleidian	
S.N.		Package No.	Name of Road	Project ID as per vi		Length /	Amount (in H		5Year Routine Maintanance	Agreement No. & Date	Completion as per Agreement	of Completion	Value of IRI (in mm/km)					against work done (in Lakh)	Remarks
					(6)			(in Lakh)	Maint. (in Lakh)						0007		28		0
	_	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/03	Improvement of Pakri Chatti Chowk to Jassuli Chowk Via House of Ramnaresh Patel and Harijan Basti road.	31507201031	06.07.2019	2.650	79.94000	46.47700	22.18103	248MBD/2020-21	03.10.2020	Work Complete	1620.000	25mm		18.55277	18.55277	5	MB Copy Attached
	2	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/26	Bardahi pul to Banjaria Paghia Hardi Pul	31507202054	19.07.2019	2.400	70.90000	44.99700	18.56110	247MBD/2020-21	27.09.2020	Work Complete	2170.000	25mm	5.00	17.99052	17.99052	26.98578	MB Copy Attached.
	3	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/26	Baruraj REO road to Kothiya Singhaila via High School Baruraj	31507202059	19.07.2019	3.290	97.73600	59.05500	25.89405	247MBD/2020-21	27.09.2020	Work Complete	2117.000	25m/m	5.00	23.58150	23.58150	35.37226	MB Copy Attached
	4	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/03	Mahna Chowk To Singhaila Chowk Tak	10109025	06.07.2019	4.000	134.89000	82.69600	33.11150	248MBD/2020-21	03.10.2020	Work Complete	2177.000	25mm	5.00	32.02972	32.02972	48.04459	MB Copy Attached.
-	~	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/03	mithanpura sriram - manguraha tajpur path	NEA220002612	06.07.2019	6.000	208.59000	130,01000	50.55616	248MBD/2020-21	03.10.2020	Work Complete	1490,000	25mm	5.00	51.93879	51.93879	77.90819	MB Copy Attached.
	6	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/06	Birihima Gopi Chowk - Manguraha Bazar Path	NEA220002624	06.07.2019	2.750	84.28000	52.87100	22.07307	249MBD/2020-21	27.09.2020	Work Complete	1900.000	25mm	5.00	21.07963	21.07963	31.61945	MB Copy Attached.
	7	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/09	Jasauli Sahi Chowk - Kathaiya Thana Path	NEA220002604	06.07.2019	6.020	168.36000	102.76600	48.30456	246MBD/2020-21	03.10.2020	Work Complete	1376.000	25mm	5.00	40.95338	40.95338	61.43006	MB Copy Attached
	_ oo	MR-N/19-20 Muzaffarpur Wesi/09	Tajpur - Chainpur Path	NEA220002630	0 06.07.2019	9 3.150	91.91000	86.38000	24.92653	246MBD/2020-21	03.10.2020	Work Complete	1722.000	25mm	5.00	22.64299	22.64299	33.96448	MB Copy Attached.
	9	MR-N/19-20 Muzaffarpur Wesi/39	Somgarh Chowk To Dharopatti	tti NEA220002557	7 13.12.2019	9 4.400	129.57300	0 73.35700	33.53709	285MBD/2020-21	14.10.2021	Work Complete	1910.000	25mm	5.00	28.66701	28.66701	43,00052	MB Copy Attached.
					_											257.43631	257.43631	386.15448	

Executive Eight RWD Works Divi Muzaffarpur W

Particulars	Details	of actu	al measi	urement	Contents
Particulars	No.	L.	В.	D.	of area
NAME OF	م <i>در</i> نے ک	H- 1	nr- A	load	·
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	pom	POSSI	anpl	ra	7 - 4-4
<u>.</u>	Siro	m (R	WS C	hallic	-yank
	lnin	(-כטם	סחו סדו	ngur	the
			pass		
A A Marca					
NAME OF	Hery	<u>→</u>	ngs (ONS4.	p. No. programme
	PUT.	VB1	nvzcy	Graph	
89.20-	- 24	MB	D/ 202	0-202	1
Tocken	f won	Mord	20 — U	10/20	20
Date				THE RESERVE OF	
mandalism 17 Printings allowed	Charles and the same of	1	1	200 P. STREET	
- sete	براه	ene	4 (5)	11015	
(Y34)	clea	ning R	6rub	sing	1
100	1 .		rel Ir	Dec. 6 /	
100	0000	0	_	140	
<u> </u>	ec	X 30	201	1.40	2010
		1 1	X 1.6	. No.25	= 1200m2
	2 202	0 X 3	X -2	#.30	1200 mL
		ì.	1	40.50	-1200AL
,	ĺ	1	1	604.40	1.0
	5.5 II	08 17 3 44			Ì
	200		18.	0+.50	6312 5 1969
	2 205	OX30	XIM	04.60	= 1200HL
	2 0 2	0 03	م ١٠٢	10+.60	= 1200mL
	1.0	4.4	XI.Z		- 1200 m2
()	100	()	clair,	200	12000 M
IONA	0 2 1	nnn		0 110	
1200	10-1	pood	F.I.	240	
per		Cont	_	31	012021 5€

Particulars	Details	s of actu	al meas	urement	Contents
	No.	L.	FIR J) D.	of area
1216764	8 = 01	B	TID T	20,0	7,010
		Tes	13-4	7,6	+ 648=
	14 50	15/6	1 3 18	167	5:00
187	1 10	" CT 1) N +		165-
10950	· . 10		177	190	883 =
Odel 2	1- leek	W 17	#	4,9	- 00
Adl 12	1-6	507	13	78,	906=
A MAN	6	Call	13)	4106	200
1300	1	Sall	7	7,87	030
13.	16.15	6 21.6	1,23	74	790 200
-61m+	1117	- 11 Bit	17 1	0	ره و سل
-	Fau	100	OCIO:	72	7 2021
(# 1	-21	,0	1101	T.R
1000	13.0	E 4	JI-M		
,	1 6	1116".	9	812	33350
Major	2 - 3	()	179	1/1	
	service.	14			
7.30	may	erei l	Ste	end	
17-7-1		7.37		59	326:0>
c/10-25	20mg	219 2	1.99	- 598	50.0
6.5.B _ 126.5	TOMOTO	9.5-1	sime	19550	85379:00
177789-5	10 2.	36 =	108 m	ery Ult	33 2
2.1	6 run	205	173ne	B 116-8	520215:
W.B.M-II	3 m To	y Sin =	2370	OB 42	7-89-101363
1 11/2/	bees	- 52	en:	BASIS	273672
TI 59 mill	22.41	= 35,5	dep y	58.22	162668:
11.2mm	70 0	Pen	<u> </u>	2 -	24186:00
K 10.4	•	. (1)	17 1 . Ca		C. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Savechier	10 3 T	yrice,	P 470	104	50764200
BACK	VHI)	eB5.	24 =	45	2734=00
S.D.B.Ca.	700.9	9-11/	SMER	520.	94 = 244899:
CIVICINT	7017	* 1 g	300	4	
Seus Se. h	209	-333	8.71	20.0	7 =66613=
Pillor ?	- 0.4	gre	R32	55.32	21742=0
SS' = 33	2944	- 13	Z O	285	923,223:00
	625 (F) (F)	Habitan A	Marine Vi	(1961)	1 2 2 20
S90 = 6				:	
S65 =	66m	√ ^C onti	nuation	The state of the s	
		6			
1:00:10	101.6		.10.	8 8.4	7 2
			- 4	o way	You will all

Limit- A110f-R2- 5193,879200	-
Sch. XLV-Form No. 134	The state of the s
Particulars Details of actual measurement Contents	41.0
No. L. B. D. of area	
The state of the s	5
Acceptant Contract Co	
CAUTE 11 1 - 1 HS - 1 - 20 3V SUUSA	
54516 12 - 51 939 - 00 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	-
~ 1 93 D = 000 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	The state of the state of
Roy - 91864 = 20	ь
F. Exteld/ _ 5.19,388 = 000	The second second
total did RI-> 1130, 642= 01270	
34. C. F.m -> 40 63 237 = 00	
143254 1400 177 - 14 0 - 144 14 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
history one we windownie	
Thousand Eight hundre	
canunto think and	
New Day	1
Executive Engineer	
Rular Work's Departmen	
Work's Division, Muzararbur Wast : Pl	-
	COLUMN TO SERVICE
5 60	
- Augustian Control of the Control o	
- 3	
A STATE OF THE STA	
ried.	1